

**आदर्श प्रश्नपत्र / Model Question Paper**  
**वेदभूषण चतुर्थ-वर्ष / Vedabhusan Fourth Year**  
**वर्ष / Year 2022-23**

**विषय - सामाजिक विज्ञान**

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न -

1. भारत में कर्क रेखा ..... राज्य से होकर गुजरती है।  
(अ) मध्यप्रदेश (ब) महाराष्ट्र  
(स) गोवा (द) तमिलनाडु
2. खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ..... राज्य में है।  
(अ) मध्यप्रदेश (ब) ओडिशा  
(स) राजस्थान (द) तमिलनाडु
3. योग दर्शन के प्रणेता ..... हैं।  
(अ) पतञ्जलि (ब) वशिष्ठ  
(स) कपिल (द) विश्वामित्र
4. फ्रान्स की क्रान्ति ..... हुई थी।  
(अ) 1889 ई. में (ब) 1789 ई. में  
(स) 1911 ई. में (द) 1198 ई. में
5. प्रथम विश्व युद्ध ..... शुरू हुआ था।  
(अ) 1916 ई. में (ब) 1914 ई. में  
(स) 1924 ई. में (द) 1920 ई. में
6. जापान ने ..... नामक अमरीकी युद्ध पोत पर हमला किया था।  
(अ) पर्ल हार्बर (ब) विक्रान्त  
(स) पनडुब्बी (द) इनमें से कोई नहीं
7. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की ..... के अध्यक्ष थे।  
(अ) राजनायिक समिति के (ब) प्रारूप समिति के  
(स) भारत के सचिव (द) स्वागत समिति के

8. भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु ..... है।  
 (अ) 18 वर्ष (ब) 20 वर्ष  
 (स) 25 वर्ष (द) 21 वर्ष
9. भारत में साक्षरता दर ..... है।  
 (अ) 75% (ब) 73 %  
 (स) 77.7 % (द) 61 %
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति ..... अन्न दिया जाता है।  
 (अ) 10 किलो (ब) 5 किलो  
 (स) 11 किलो (द) 15 किलो

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये -**

11. बिहार ..... वर्षा क्षेत्र में आता है। (औसत/अधिक)  
 12. धर्म का श्रेष्ठ साधन ..... माना गया है। (दान/शरीर)  
 13. समाजवाद को एक ..... की संज्ञा दी गई थी। (कलम/टोपी)  
 14. विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली ..... है। (लोकतन्त्र/राजतन्त्र)  
 15. राष्ट्रीय मतदाता दिवस..... को मनाया जाता है। (25 जनवरी/ 26 जनवरी)

**सत्य/असत्य बताइए -**

16. भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। (सत्य/असत्य)  
 17. शतरंज एक प्राचीन खेल है। (सत्य/असत्य)  
 18. 1917 में क्रान्ति के समय फ्रान्स की राजधानी पेत्रोगाद थी। (सत्य/असत्य)  
 19. लोकसभा सदस्य को विधायक कहते हैं। (सत्य/असत्य)  
 20. गुजरात सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। (सत्य/असत्य)

**सही-जोड़ी मिलान -**

21. शीत ऋतु (क) जून से जुलाई  
 22. ग्रीष्म ऋतु (ख) मध्य नवम्बर से फरवरी  
 23. मानसून आगमन (ग) मार्च से मई  
 24. मानसून वापसी (घ) चाय  
 25. बागानी कृषि (ङ) सितम्बर से नवम्बर

### अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

26. भारत का क्षेत्रफल कितना है ?
27. भारत में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएँ होती हैं ?
28. देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है ?
29. अर्जुन किस विद्या का विशेषज्ञ था ?
30. फ्रान्स में आतंक के राज्य की स्थापना कब हुई ?
31. प्रमुख समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए ।
32. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ?
33. प्रजातंत्र या राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है ?
34. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे ?
35. स्थायी पूँजी किसे कहते हैं ?

### लघु उत्तरीय प्रश्न -

36. अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए ।
37. बन्ध कितने होते हैं ? नाम लिखिए ।
38. महिलाओं के बारे में हिटलर के क्या विचार थे ?
39. प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए ।
40. गरीबी रेखा क्या होती है ?

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

41. भारत के भौतिक स्वरूप को समझाइए ।
42. वैदिक वाङ्मय में दान के महत्त्व को समझाइए ।